



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 चैत्र 1937 (श0)  
(सं0 पटना 386) पटना, मंगलवार, 24 मार्च 2015

---

सं0 11/आ0नी0-1-09/2014 सा0प्र0-4277

सामान्य प्रशासन विभाग

---

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।  
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।  
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।  
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।  
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना-15, दिनांक 20 मार्च 2015

विषय:- नियुक्ति प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-1646 दिनांक 30.01.2015 द्वारा प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु चयन समिति/आयोग

में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को (पूर्व से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पदाधिकारी के मनोनयन के अतिरिक्त) सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय।

उक्त परिपत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत सम्मिलित विभिन्न धर्मों को परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अतः सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी धर्मावलम्बी शामिल हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में पारसी धर्मावलम्बी नहीं पाये जाते हैं।

विश्वासभाजन,

राजेन्द्र राम,

सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 386-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>